



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62]  
No. 62]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 1984/वैशाख 29, 1906  
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1984/VAISAKHA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 15-ईटीसी (पीएन)/84

नई दिल्ली, 19 मई, 1984

विषय: किरिलाख और मोलम्मा का निर्यात

सं० सं० 16/1/81-ई-1.—निर्यात (नियंत्रण)आदेश 1977 की अनुसूची-1 की क्रम सं० 14 के भाग "क" में दर्शाई गई प्रविष्टि की ओर ध्यान दिलाया जाता है। उपर्युक्त प्रविष्टि के अनुसार कच्ची लाख, किरिलाख मोलम्मा (जिसमें डोंगली सिविंग्स भी शामिल हैं) पेसवा झूड़लाख और कोई भी लाख जिसमें जीवित कीड़े हों, का निर्यात निषेध है।

2. निषेध आवेग में आंशिक छूट करते हुए यह निश्चय किया गया है कि 1984-85 के दौरान किरिलाख और मोलम्मा की एक सीमित मात्रा का निर्यात नीचे दर्शाई गई श्रेणीवार न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन भारतीय व्यापार निगम के माध्यम से और इसके साथ-साथ (1) निर्यात मूल्य जांच पड़ताल पर्वी और (2) अपर्याप्त निर्यात संबंधित परिवर्धन, कलकत्ता द्वारा जारी किया गया क्वालिटी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अनुमेष होगा।

न्यूनतम निर्यात मूल्य (75 किलो प्रति बोरे का रूपों में मूल्य)

किरीलाख-1

किरीलाख (जिसमें लाख की मात्रा 55 प्रतिशत और 65 प्रतिशत के बीच में हो)

165.00

किरी-2

किरीलाख (जिसमें लाख की मात्रा 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के बीच में हो) 125.00

मोलम्मा-1

डोंगली/मोडलाख सीविंग्स (जिसमें लाख की मात्रा 70 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच में हो और 30 मेगसीब पर गुजरे हुए हों) 287.00

मोलम्मा-2 का निर्यात (जिसमें लाख की मात्रा 55 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच में हो) अनुमित नहीं है।

पी०सी० जैन, मुख्य नियंत्रक  
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTIC No. 15 ETC-PN/84.

New Delhi, the 19th May, 1984.

Subject:— Export of Kirilac and Molamma.

F. No. 16/1/81-EI.— Attention is invited to entry appearing at S. No. 14 of Part 'A' Schedule-I to the Exports (Control) Order, 1977. According to the above entry, export of Sticklac, Kirilac, Molamma (including Dogalee Seivings) Pasewa, Brood lac and any lac containing living insects is banned.

2. In partial relaxation of the ban, it has been decided to allow export of a limited quantity of Kirilac and Molamma during 1984-85 through the State Trading Corporation of India subject to the undermentioned gradewise Minimum Export Prices and also subject to the production of (i) export price scrutiny slip and (ii) quality certificate, issued by the Shellac Export Promotion Council, Calcutta.

MEP (Rupees  
per bag of 75  
Kgs.)

#### Kiri-I

Kirilac (having lac content between 55% and 65%).	165.00
---	--------

#### Kiri-II

Kirilac (having lac content between 40% and 55%).	125.00
---	--------

#### Molamma-I

Dogalee/seedlac scivings (having lac content between 70% and 80% and passing through a 30 mesh sieve).	287.00
--	--------

Export of Molamma-II (with lac content 55% to 70%) is not allowed.

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports